



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 19 जून, 2021

ज्येष्ठ 29, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 492/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(185)-2021

लखनऊ, 19 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-143

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-983/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(42)-2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि उक्त व्यक्ति दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 के प्रपत्र जीएसटीआर-04 में विवरणी, दिनांक 31 मई, 2021 तक प्रस्तुत करेंगे।”

2-यह अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
संजीव मित्तल,  
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 492/XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(185)-2021, dated June 19, 2021 :

No. 492/XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(185)-2021

*Dated Lucknow, June 19, 2021*

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-983/XI-9(47)/17-U.P. Act-1-2017-Order- (42) -2019, dated July 2, 2019, namely:-

#### AMENDMENT

In the said notification, in the third paragraph, *after* the first proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided further that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR-4 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 for the financial year ending 31<sup>st</sup> March, 2021, upto the 31<sup>st</sup> day of May, 2021."

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 30th day of April, 2021.

By order,  
SANJIV MITTAL,  
*Apar Mukhya Sachiv.*